

## गैर-सरकारी गैर-वित्तीय बड़ी पब्लिक कंपनियों के वित, 2011-12\*

2011-12 में चयनित गैर-सरकारी गैर-वित्तीय बड़ी पब्लिक कंपनियों के कुल परिणामों से पता चलता है कि प्रमुख मानदंडों की वृद्धि दर में 2010-11 की तुलना में कमी आई है। बिक्री की तुलना में परिचालनगत व्यय में जारी अपेक्षाकृत उच्च वृद्धि और 2011-12 में स्टाक में कमी के चलते लाभ अर्थात् ब्याज, कर, मूल्यहास और धन शोधन के पहले अर्जन (ईबीआईटीडीए) और निवल लाभ (पीएटी) और लाभ मार्जिन में 2010-11 की तुलना में कमी आई है। लाभ कम होने के चलते सकल बचत में भी गिरावट आई। तथापि उधारियों में 2011-12 में हुई वृद्धि पिछले वर्ष के समान रही। निवल मालियत में वृद्धि पिछले पांच वर्षों में सबसे न्यूनतम स्तर पर रही है और 2011-12 में इक्विटी अनुपात की तुलना में ऋण में बढ़ोतरी हुई जो 2007-08 की गिरावट वाली प्रवृत्ति में सुधार को दर्शाती है। 2011-12 के दौरान पूंजीगत प्रक्रियाधीन कार्य में भारी कमी देखी गई जबकि संयंत्र और मशीनरी के अधिग्रहण में तदनरूपी बढ़ोतरी देखी गई। तथापि, अचल आस्तियों के निर्माण में निवेश के संबंधित बढ़ोतरी 2011-12 में बहुत ही मामूली रही।

इस लेख में 2010-11 के दौरान चयनित 1,843 गैर-सरकारी गैर-वित्तीय (एनजीएनएफ) बड़ी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों<sup>1</sup> का वित्तीय निष्पादन प्रस्तुत किया गया है, जो अप्रैल

\* सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग के कंपनी वित्त प्रभाग में तैयार किया गया। पिछले अध्ययन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन के फरवरी 2012 अंक का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें 2010-11 के दौरान 2,072 गैर सरकारी गैर वित्तीय बड़ी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों को सम्मिलित किया गया था। इस अध्ययन में 552 नयी कंपनियों को सम्मिलित किया गया है जो पिछले अध्ययन में भी सम्मिलित 1,291 कंपनियों के अतिरिक्त हैं। कुछ नमूना कंपनियों के आंकड़े सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन ईकोनोमी (सीएमआई) से प्राप्त किये गये हैं।

<sup>1</sup> वे कंपनियां जिनकी चुकता पूंजी ₹10 मिलियन और उससे अधिक है।


<sup>2</sup> जिन कंपनियों ने अपने लेखांकन वर्ष को विस्तारित अथवा छोटा किया है, उनकी आय, व्यय और विनियोजन लेखे के आंकड़ों को वार्षिक आधार पर लिया गया है। तथापि तुलन-पत्र के आंकड़ों को उसी रूप में रखा गया है जैसा कंपनियों के वार्षिक लेखों में है। चयनित कंपनियों का वित्तीय विश्लेषण इन सीमाओं को ध्यान में रखकर किया गया है।

2011 से मार्च 2012<sup>2</sup> के उनके लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों पर आधारित है और पूर्व में प्रकाशित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों से संबंधित पिछले अध्ययन के आधार पर 2007-08 से 2011-12 तक की पांच वर्ष अवधि के दौरान तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करता है। व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ 2011-12 के लिए विस्तृत आंकड़े रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर दिए गए हैं। 31 मार्च 2012 को नवीनतम आंकड़ों के निर्गम में शामिल चुनिंदा 1,843 कंपनियों ने सभी गैर-सरकारी गैर-वित्तीय पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की लोगों की प्रदत्त पूंजी का 23.3 प्रतिशत (कंपनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अनंतिम अनुमान) रहा।

### 1. बिक्री वृद्धि में कमी आई और लाभ घटा है

1.1 2011-12 के दौरान मांग में कमी आई जो 2010-11 की तुलना में कम बिक्री वृद्धि (18.5 प्रतिशत) को दर्शाता है (सारणी 1 और चार्ट 1), इसके साथ-साथ स्टाक भी कम रहा। तथापि, परिचालनगत व्यय अपेक्षाकृत अधिक दर से बढ़ते रहे हैं जिसके चलते परिचालनगत लाभ अर्थात् ईबीआईटीडीए कम रहा। ब्याज व्यय लगातार अधिक बने रहने के कारण निवल लाभ (पीएटी) 2011-12 में तेजी से कम हुआ। 2009-10 में ईबीआईटीडीए की वृद्धि में तेज बढ़ोतरी के बाद, जिसका प्रमुख कारण कर्मचारियों के पारिश्रमिक में कम वृद्धि होना था, 2010-11 के दौरान ईबीआईटीडीए की वृद्धि में 18.6 प्रतिशत अंक की गिरावट

चार्ट 1 : प्रमुख वृद्धि दरों




आई और 2011-12 में क्रूणात्मक (-5.4 प्रतिशत) हो गई।

1.2 बिक्री-आकार के अनुसार अलग-अलग स्तर पर, सभी आकार वाले समूहों की कंपनियों में 2011-12 में बिक्री वृद्धि कम रही। ₹1 बिलियन से कम बिक्री वाले छोटे आकार की कंपनियों की बिक्री में गिरावट आई। ईबीआईटीडीए में गिरावट छोटे आकार वर्ग में भी बहुत अधिक रही।

1.3 क्षेत्रगत स्तर पर, बिक्री वृद्धि में कमी ज्यादातर सेवा क्षेत्र में रही किन्तु 2011-12 के दौरान इस क्षेत्र के ईबीआईटीडीए में बहुत कम गिरावट देखी गई क्योंकि उनका परिचालनगत व्यय कम रहा था। बिक्री और ईबीआईटीडीए दोनों के अनुसार ‘परिवहन’ और ‘स्थावर संपदा’ से संबंधित उद्योगों का कार्यनिष्पादन पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

1.4 विनिर्माण क्षेत्र में ‘सीमेंट और सीमेंट के उत्पाद’ और ‘लोहा और स्टील’ से संबंधित उद्योगों की प्रवृत्ति में अनुकूल परिवर्तन हुआ और 2011-12 के दौरान इन उद्योगों की बिक्री वृद्धि में बढ़ोतरी हुई। दूसरी ओर, ‘वस्त्र’ और ‘मोटर वाहनों और अन्य परिवहन उपस्करणों’ की बिक्री वृद्धि में भारी गिरावट आई। ईबीआईटीडीए के संबंध में, ‘खाद्य उत्पाद और पेय पदार्थ’, ‘सीमेंट और सीमेंट के उत्पाद और ‘इलेक्ट्रिक मशीनरी और उपकरणों से संबंधित उद्योगों में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक वृद्धि दर्ज की गई।




## 2. लाभ मार्जिन दबाव में बनी रही

2.1 भारतीय कार्पोरेट की लाभ मार्जिन 2007-08 में अपने उच्चतम स्तर पर थी। अगले तीन वर्षों 2010-11 तक मार्जिन में कमी आई किन्तु यह कमी बहुत ही मामूली थी (चार्ट 2)। 2011-12 के दौरान मार्जिन में तेजी से कमी आई क्योंकि कमजोर मांग के कारण कार्पोरेट अपने मूल्य-निर्धारण क्षमता को बनाए नहीं रख सके (बाक्स 1)।

2.2 ₹1 बिलियन से अधिक बिक्री वाली बड़ी कंपनियों की बिक्री-वृद्धि अनुकूल रही किन्तु उनकी ईबीआईटीडीए मार्जिन पिछले

बाक्स 1 : कार्पोरेट की घटी कीमत निर्धारण क्षमता

विनिर्माण व्यय और स्टाफ लागत (कर्मचारियों को पारिश्रमिक और कल्याणकारी व्यय) कंपनियों की व्यय से संबंधित प्रमुख मद्देहोत्ती हैं। बिक्री की तुलना में प्रतिशत के रूप में, व्यय की इन दोनों प्रमुख मद्दों का हिस्सा पिछले वर्षों के दौरान 71.3 प्रतिशत (2001-02) और 79.4 (2011-12) के बीच रहा है। ईबीआईटीए मार्जिन (बिक्री की तुलना में प्रतिशत के रूप में ईबीआईटीए) सबसे अधिक 16.0 प्रतिशत वर्ष 2007-08 और सबसे कम 10.1 प्रतिशत 2000-01 में रही। 2001-02 से 2004-05 तक की अवधि के दौरान विनिर्माण व्यय और स्टाफ लागत के हिस्से में बढ़ोतरी के बावजूद ईबीआईटीडीए की मार्जिन में सुधार हुआ है। यह इस बात का सुचक हो सकता है कि अधिक बिक्री वृद्धि के चरण के दौरान कार्पोरेट लागत में हुई बढ़ोतरी को ग्राहकों पर डाल पर सकता है। तथापि, 2005-06 से इन अनुपातों की स्थित बिल्कुल विपरीत रही। ईबीआईटीडीए की मार्जिन विनिर्माण और स्टाफ लागत के हिस्से में कमी (बढ़ोतरी) के चलते बढ़ी (घटी) है। 2010-11



तथा 2011-12 में इन व्ययों के हिस्से में हुई तेजी से बढ़ोतरी और ईबीआईटीडीए की मार्जिन में हुई कमी के चलते कार्पोरेट को कम कीमत निर्धारण क्षमता के लिए सुझाव दिया गया क्योंकि वे व्यय में बढ़ोतरी नहीं कर सके और लाभ मार्जिन को नहीं बचा सके।

पांच वर्षों की तुलना में अपने न्यूनतम स्तर पर रही। सबसे तीव्र गिरावट ₹1 बिलियन से ₹5 बिलियन और ₹10 बिलियन और उससे अधिक बिक्री आकार वाली कंपनियों में देखी गई।

2.3 क्षेत्रगत स्तर पर, सेवा क्षेत्र में इंबीआईटीडीए मार्जिन विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में अधिक रही। सामान्यतः विनिर्माण क्षेत्र के ‘फार्मासूटिकल और दवाइयों’ और सीमेंट और सीमेंट उत्पाद से संबंधित उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योगों की इंबीआईटीडीए मार्जिन में गिरावट आई। सेवा क्षेत्र में, ‘परिवहन’ उद्योग की मार्जिन में काफी गिरावट आई।

### 3. कारोबार में धीमी वृद्धि

3.1 2008-09 के संकट के समय से भारतीय कार्पोरेट की कुल निवल आस्तियों में वृद्धि कम हुई जो 2010-11 में सुधार की प्रवृत्ति में गतिरोध पैदा करती है। पिछले पांच वर्षों के दौरान ₹1 बिलियन से कम बिक्री आकार वाली कंपनियों में कुल निवल आस्तियों में वृद्धि कम रही। ₹1 बिलियन से ₹5 बिलियन की बिक्री आकार वाली कंपनियों को छोड़कर 2011-12 में सभी आकार वाली कंपनियों की कुल निवल आस्तियों में भी गिरावट आई।

3.2 जहां सेवा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों की कुल निवल आस्तियां में वृद्धि 2008-09 तक विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में अधिक रही, वहीं 2009-10 से स्थिति बिलकुल इसके विपरीत हो गई। तथापि, ‘रसायन और रासायनिक उत्पाद’ और ‘लोहा तथा स्टील’ को छोड़कर विनिर्माण क्षेत्र की सभी कंपनियों में वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में 2011-12 में कुल निवल आस्तियों में कम रही। सेवा क्षेत्र में ‘परिवहन’ और कंप्यूटर तथा संबद्ध गतिविधियों के उद्योग में 2011-12 में कुल निवल आस्तियों में अधिक वृद्धि हुई।

3.3 पूंजी बाजार में प्रतिकूल धारणा के चलते 2007-08 और 2011-12 के बीच कंपनियों की निवल मालियत की वृद्धि दर में भी लगातार गिरावट आई (विवरण 2)। 2011-12 के दौरान लाभ में कम बढ़ोतरी होने के कारण निवल मालियत वृद्धि में भी गिरावट आई।

### 4. इक्विटी की तुलना ऋण अनुपात में बढ़ोतरी हुई


4.1 2009-10 के दौरान कुल उधारियों की वृद्धि में तेजी से गिरावट आई और फिर 2010-11 और 2011-12 में इसमें थोड़ा सा सुधार आया। तथापि, 2011-12 में छोटी कंपनियों (अर्थात् जिनकी बिक्री ₹1 बिलियन से कम है और


₹5 बिलियन और ₹10 बिलियन के बीच है) के कुल उधार की वृद्धि दर में कमी आई। 2011-12 में ‘वस्त्र’, ‘लोहा और इस्पात’, ‘फार्मासूटिकल और दवाइयों’ से संबंधित उद्योगों की कुल उधार राशि में भी कमी आई। दूसरी ओर, ‘खाद्य उत्पाद और पेय पदार्थ’ उद्योगों से संबंधित कंपनियों में भारी मात्रा में उधार राशि लेना जारी और 2010-11 की तुलना में वृद्धि अधिक रही। इसके अतिरिक्त, 2011-12 में उधार राशियों में अधिक वृद्धि ‘मशीनरी और उपकरण (गैर इलेक्ट्रिकल)’, ‘निर्माण’, ‘रसायन और रासायनिक उत्पादों’ से संबंधित उद्योगों में भी देखी गई।

4.2 2007-08 से व्याप्त गिरावट की प्रवृत्ति से निकल कर 2011-12 के दौरान इक्विटी तुलना में ऋण अनुपात में बढ़ोतरी हुई जिसका प्रमुख कारण निवल मालियत की वृद्धि की तुलना में उधार राशियों में अधिक वृद्धि का होना था (चार्ट 3)। यह 2007-08 के 44.4 प्रतिशत से घटकर 2010-11 में 41.1 प्रतिशत रह गया किन्तु 2011-12 में यह बढ़कर 43.2 प्रतिशत हो गया। बिक्री आकार-वार - जहां छोटे बिक्री आकार वाली कंपनियों अर्थात् ₹1 बिलियन से कम बिक्री आकार वाली कंपनियों के लिए इक्विटी की तुलना में ऋण अनुपात कम रहा, वहीं 2011-12 के दौरान ₹5 बिलियन से ₹10 बिलियन की बिक्री आकार वाली कंपनियों का इक्विटी की तुलना में ऋण अनुपात में काफी अधिक रहा (विवरण 2)।

4.3 जहां, इक्विटी की तुलना में ऋण अनुपात अधिकांश उद्योगों में अपेक्षाकृत कम रहा, वहीं ‘परिवहन’, ‘वस्त्र’,

चार्ट 3 : इक्विटी की तुलना में ऋण अनुपात







‘लोहा तथा इस्पात’ और खाद्य और पेय पदार्थों के ईक्विटी की तुलना में ऋण अनुपात अधिक बने रहे। ‘परिवहन’ ‘खाद्य और पेय पदार्थों’ से संबंधित उद्योगों की इंबीआईटीडीए मार्जिन अपेक्षाकृत कम होने और ईक्विटी की तुलना में ऋण अनुपात अधिक होना थोड़ा-बहुत चितां का विषय हो सकता है।

## 5. जहां कुल आस्तियों में निवल अचल आस्तियों के हिस्से में गिरावट आई वहाँ निवेश के हिस्से में बढ़ोतरी हुई

5.1 चुकता पूंजी, रिजर्व और अधिशेष, उधार राशियों, व्यापार बकाया और अन्य चालू देयताओं और प्रावधानों के

संबंध में कुल देयताओं की समग्र संरचना पिछले पांच वर्ष के समान रही है (विवरण 3क और चार्ट 4)। तथापि, आस्ति पक्ष में कुल आस्तियों में निवल अचल आस्तियों का हिस्सा पिछले पांच वर्षों से धीरे-धीरे कम हुआ है और उसी के अनुसार निवेश का हिस्सा बढ़ा है और 2011-12 में बढ़कर 19.5 प्रतिशत हो गया जो पांच वर्षों के दौरान सबसे अधिक था (विवरण 3 ख तथा चार्ट 5)। ‘ऋण और अग्रिम’ का हिस्सा जिसमें 2008-09 के दौरान गिरावट आई थी, में धीरे-धीरे सुधार हुआ।






## 6. अचल आस्ति संरचना निधियों के उपयोग में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बना रहा

6.1 2011-12 के दौरान कार्पोरेट द्वारा उधार ली गई निधियां प्रमुख रूप से निधि के बाह्य (अर्थात् अपनी स्वयं की कंपनियों छोड़कर) स्रोतों से लेना जारी रखा, यद्यपि, इसका हिस्सा 2010-11 के 63.6 प्रतिशत से कम होकर 2011-12 में 60.8 प्रतिशत रह गया (विवरण 4क और चार्ट 6)। इसका कारण बाजार से ली गई चुकता पूँजी के हिस्से में तेजी से गिरावट का होना था। उधार के जरिए ली गई राशि

2010-11 के 25.2 प्रतिशत की तुलना में 2011-12 में काफी अधिक 34.1 प्रतिशत रही थी।

6.2 2011-12 के दौरान निधियों के उपयोग में सकल अचल आस्तियों का हिस्सा काफी अधिक रहा (विवरण 4ख और चार्ट 7)। 2011-12 के दौरान निधियों के उपयोग में ‘ऋण और अग्रिम तथा अन्य देनदार शेष’ के हिस्से में बढ़ोतरी हुई। निवेश के हिस्से, जो 2010-11 के दौरान तेजी से कम हुआ था, में 2011-12 के दौरान सुधार की प्रवृत्ति देखी गई।



विवरण 1 : आय और व्यय - पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के चुनिंदा मानदंडों को वृद्धि दर और अनुपात

	बिक्री में वृद्धि					परिचालनगत व्यय में वृद्धि				
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
नगूने में शामिल कंपनियों की संख्या	3114	3192	3352	3485	1843	3114	3192	3352	3485	1843
<b>कुल (कुल कंपनी)</b>	<b>18.6</b>	<b>14.6</b>	<b>12.3</b>	<b>20.6</b>	<b>18.5</b>	<b>19.5</b>	<b>17.6</b>	<b>9.7</b>	<b>23.0</b>	<b>20.9</b>
<b>बिक्री वार</b>										
₹ 1 बिलियन से कम	7.5	-4.9	0.7	6.9	-9.5	12.0	-0.7	2.4	9.8	-7.0
₹ 1 बिलियन से ₹ 5 बिलियन	17.2	12.9	7.8	16.6	9.5	18.9	14.0	6.3	19.9	12.6
₹ 5 बिलियन से ₹ 10 बिलियन	17.8	11.4	12.1	20.0	13.0	17.7	15.4	9.8	23.2	14.5
₹ 1 बिलियन से अधिक	19.9	16.4	13.7	21.6	20.1	20.6	19.6	10.7	23.8	22.4
<b>उद्योगवार</b>										
<b>खनन और उत्थनन विनिर्माण</b>	<b>20.2</b>	<b>22.7</b>	<b>3.2</b>	<b>29.8</b>	<b>21.3</b>	<b>2.5</b>	<b>31.4</b>	<b>7.9</b>	<b>26.9</b>	<b>39.6</b>
<b>विनिर्माण</b>	<b>16.7</b>	<b>13.1</b>	<b>13.2</b>	<b>21.9</b>	<b>20.1</b>	<b>17.8</b>	<b>15.7</b>	<b>10.1</b>	<b>25.6</b>	<b>22.3</b>
खाद्य उत्पाद और पेय पदार्थ	19.7	19.1	14.6	31.6	22.2	26.9	16.3	12.2	36.8	21.4
सूती वस्त्र	18.1	12.5	19.2	29.6	12.2	18.2	11.6	14.0	32.7	16.5
रसायन और रासायनिक उत्पाद	12.2	20.0	3.1	12.5	15.2	13.2	25.5	-3.0	21.0	16.9
फार्मास्यूटिकल्स और दवाएं	14.9	14.9	11.6	15.6	16.8	17.4	20.3	4.7	16.9	24.0
प्लास्टिक उत्पाद	26.7	15.7	13.2	26.6	14.0	25.1	15.8	11.4	23.9	20.3
सीमेंट और सीमेंट उत्पाद	21.9	16.0	12.0	0.6	23.8	19.7	23.0	9.4	15.4	22.3
लोहा और इस्पात	20.8	15.9	6.9	6.5	20.6	22.5	18.6	3.6	26.0	21.4
मशीनरी और मशीनी उपकरण एन.ई.सी	22.5	8.6	9.5	20.5	17.3	22.7	8.6	7.9	23.6	21.7
इलेक्ट्रिकल मशीनरी और एप्रेटेस	29.4	12.1	0.9	12.9	11.7	27.8	14.0	-1.5	18.2	9.5
मोटर वाहन और अन्य परिवहन उपस्कर	10.0	7.1	26.2	27.9	17.6	12.7	7.9	22.1	29.7	19.3
<b>निर्माण</b>	<b>47.7</b>	<b>29.2</b>	<b>17.0</b>	<b>12.3</b>	<b>21.2</b>	<b>46.1</b>	<b>33.4</b>	<b>11.6</b>	<b>14.9</b>	<b>22.5</b>
<b>सेवाएं</b>	<b>21.1</b>	<b>15.1</b>	<b>9.0</b>	<b>18.1</b>	<b>11.3</b>	<b>21.4</b>	<b>19.1</b>	<b>8.1</b>	<b>16.3</b>	<b>13.2</b>
परिवहन	28.1	19.0	5.4	17.2	9.1	30.0	24.5	15.8	13.8	20.9
दूरसंचार	23.8	19.5	8.0	15.2	11.7	21.0	31.1	13.0	20.3	10.2
स्थावर संपदा	41.7	-40.9	34.1	6.9	-15.7	49.1	-42.1	24.1	15.0	-17.9
कंप्यूटर और संबंधित कार्यकलाप	23.9	23.8	3.0	15.5	22.4	26.3	27.2	-3.8	17.2	25.2

विवरण 1 : आय और व्यय - पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के चुनिंदा मानदंडों की वृद्धि दर और अनुपात (समाप्त)

	इंडीआईटीडीए में वृद्धि					बिक्री की तुलना में इंडीआईटीडीए				
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
नगूने में शामिल कंपनियों की संख्या	3114	3192	3352	3485	1843	3114	3192	3352	3485	1843
<b>कुल (कुल कंपनी)</b>	<b>15.8</b>	<b>-8.6</b>	<b>32.4</b>	<b>13.8</b>	<b>-5.4</b>	<b>14.6</b>	<b>12.2</b>	<b>13.6</b>	<b>13.0</b>	<b>9.9</b>
<b>बिक्री वार</b>										
₹ 1 बिलियन	-16.3	-69.6	#	-7.9	-28.3	5.6	2.3	-6.8	6.6	6.1
₹ 1 बिलियन से ₹ 5 बिलियन	11.2	-11.8	23.2	4.1	-46.7	11.5	7.3	10.5	9.1	3.0
₹ 5 बिलियन से ₹ 10 बिलियन	24.9	-24.5	32.2	7.4	-16.4	13.1	9.2	13.0	10.8	7.5
₹ 10 बिलियन से अधिक	16.4	-5.1	33.3	15.7	-2.9	16.3	13.9	14.9	14.0	10.6
<b>उद्योगवार</b>										
<b>खनन और उत्खनन विनिर्माण</b>	<b>54.2</b>	<b>2.6</b>	<b>-6.5</b>	<b>60.4</b>	<b>-25.4</b>	<b>32.0</b>	<b>28.5</b>	<b>11.9</b>	<b>15.0</b>	<b>17.6</b>
<b>विनिर्माण</b>	<b>12.7</b>	<b>-8.9</b>	<b>41.8</b>	<b>14.1</b>	<b>-5.7</b>	<b>14.5</b>	<b>11.3</b>	<b>13.2</b>	<b>12.3</b>	<b>9.3</b>
खाद्य उत्पाद और पेय पदार्थ	-7.1	26.2	59.2	-6.3	12.9	7.1	6.6	8.4	6.4	6.0
सूती वस्त्र	16.9	-11.7	91.6	39.0	-25.8	10.0	8.2	13.1	11.4	10.0
रसायन और रासायनिक उत्पाद	2.5	-16.7	70.0	13.3	-16.7	12.6	8.7	13.1	12.0	5.8
फार्मस्यूटिकल्स और दवाएं	0.9	-11.2	58.6	11.8	-21.1	17.3	12.9	18.1	17.2	12.2
प्लास्टिक उत्पाद	46.6	-1.3	45.2	50.6	-28.6	13.3	11.3	13.7	16.2	11.6
सीमेंट और सीमेंट उत्पाद	30.5	-3.5	18.6	-29.3	24.2	30.4	25.3	26.6	19.2	17.6
लोहा और इस्पात	20.6	-7.5	28.8	6.7	-0.5	19.3	15.6	18.0	17.4	14.9
मशीनरी और मशीनी उपकरण एन.ई.सी.	26.7	-1.8	17.9	-1.9	-51.7	12.8	11.1	11.2	8.3	2.8
इलेक्ट्रिकल मशीनरी और एपरेट्स	41.2	-58.0	98.7	-8.5	27.3	14.0	2.4	5.2	9.1	5.0
मोटर वाहन और अन्य परिवहन उपस्कर	10.6	-22.6	94.0	18.8	4.6	10.5	7.4	11.3	10.6	8.3
<b>निर्माण</b>	<b>41.1</b>	<b>-19.2</b>	<b>-353.8</b>	<b>5.6</b>	<b>-9.7</b>	<b>10.5</b>	<b>6.2</b>	<b>1.1</b>	<b>13.9</b>	<b>6.7</b>
<b>सेवाएं</b>	<b>23.0</b>	<b>-8.1</b>	<b>10.6</b>	<b>12.1</b>	<b>-0.6</b>	<b>15.3</b>	<b>17.3</b>	<b>16.7</b>	<b>15.4</b>	<b>15.2</b>
परिवहन	19.2	-12.7	-57.0	58.2	-90.2	16.2	10.9	5.8	10.3	1.0
दूरसंचार	41.3	-7.7	-6.8	-3.4	19.3	17.4	22.4	21.7	18.0	18.3
स्थावर संपदा	39.6	-41.8	-1.9	26.7	-20.5	23.0	45.2	28.0	24.7	39.7
कंप्यूटर और संबंधित कार्यकलाप	16.3	12.7	33.0	11.9	13.8	23.2	21.8	24.7	24.6	23.5

#: यदि हर अथवा अंश ऋणात्मक, नगण्य अथवा शून्य हो।

विवरण 2 : देयताएं और आस्तियाँ - पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के चुनिंदा मानदंडों की वृद्धि दर और अनुपात

	निवल मालियत					कुल उधारियाँ				
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
नगूने में शामिल कंपनियों की संख्या	3114	3192	3352	3485	1843	3114	3192	3352	3485	1843
<b>कुल (कुल कंपनी)</b>	<b>31.9</b>	<b>20.5</b>	<b>19.8</b>	<b>17.1</b>	<b>8.4</b>	<b>28.2</b>	<b>29.0</b>	<b>7.0</b>	<b>15.8</b>	<b>16.4</b>
<b>बिक्री वार</b>										
₹ 1 बिलियन से कम	32.3	11.0	13.0	11.1	5.6	13.0	7.1	10.2	10.9	6.3
₹ 1 बिलियन से ₹ 5 बिलियन	31.0	9.6	16.1	11.9	8.3	29.2	18.6	11.0	8.9	14.4
₹ 5 बिलियन से ₹ 10 बिलियन	31.6	14.7	19.5	18.1	7.4	26.0	28.3	9.7	23.1	10.5
₹ 10 बिलियन से अधिक	32.1	24.1	21.0	17.9	8.7	30.2	33.5	5.5	16.1	17.6
<b>उद्योगवार</b>										
<b>खनन और उत्थनन विनिर्माण</b>	<b>38.7</b>	<b>27.2</b>	<b>26.4</b>	<b>45.1</b>	<b>5.4</b>	<b>24.1</b>	<b>57.9</b>	<b>16.2</b>	<b>23.2</b>	<b>7.1</b>
<b>विनिर्माण</b>	<b>31.9</b>	<b>16.5</b>	<b>19.1</b>	<b>17.3</b>	<b>10.1</b>	<b>24.3</b>	<b>25.8</b>	<b>6.0</b>	<b>14.4</b>	<b>16.3</b>
खाद्य उत्पाद और पेय पदार्थ	23.4	18.1	27.7	17.5	8.4	45.7	21.7	12.5	26.9	26.4
सूती वस्त्र	15.5	3.2	19.9	17.5	5.4	30.5	17.8	13.4	15.4	7.3
रसायन और रासायनिक उत्पाद	22.2	12.3	18.2	15.7	14.6	11.3	23.2	-2.3	10.5	20.2
फार्मस्यूटिकल्स और दवाएं	22.2	15.0	21.6	17.7	5.6	16.9	29.9	-6.1	21.9	6.2
प्लास्टिक उत्पाद	47.2	10.0	18.4	21.6	8.9	32.3	17.1	15.0	8.0	16.4
सीमेट और सीमेट उत्पाद	41.0	25.1	14.4	18.2	12.5	23.8	29.2	12.5	6.9	7.3
लोहा और इस्पात	61.5	9.4	24.9	0.2	10.2	36.2	30.9	12.1	17.3	16.8
मशीनरी और मशीनरी उपकरण एन.ई.सी.	24.6	16.2	17.5	15.6	8.1	30.2	14.2	1.3	19.0	35.0
इलेक्ट्रिकल मशीनरी और एपरेटस	48.0	10.9	17.5	15.3	8.6	40.9	39.9	-1.5	2.9	13.6
मोटर वाहन और अन्य परिवहन उपस्कर	20.9	20.7	19.5	21.8	12.1	28.7	55.3	7.2	1.9	12.8
<b>निर्माण</b>	<b>63.3</b>	<b>11.6</b>	<b>26.8</b>	<b>10.8</b>	<b>8.2</b>	<b>46.2</b>	<b>47.6</b>	<b>19.1</b>	<b>18.8</b>	<b>30.4</b>
<b>सेवाएं</b>	<b>27.5</b>	<b>31.4</b>	<b>18.3</b>	<b>14.2</b>	<b>5.1</b>	<b>49.3</b>	<b>33.6</b>	<b>5.9</b>	<b>15.4</b>	<b>12.3</b>
परिवहन	68.6	15.7	27.7	1.5	-26.1	39.2	29.8	6.1	-7.0	16.6
दूरसंचार	7.4	64.8	8.3	3.7	-1.9	59.7	51.3	3.9	36.5	6.5
स्थावर संपदा	107.4	13.0	28.7	14.8	3.7	22.5	9.0	-1.9	18.4	-1.5
कंप्यूटर और संबंधित कार्यकलाप	23.6	16.3	26.0	16.1	15.6	143.7	31.8	13.0	7.5	15.6

विवरण 2 : देयताएं और आस्तियाँ - पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के चुनिंदा मानदंडों की वृद्धि और अनुपात (समाप्त)

	कुल निवल आस्तियाँ					इक्विटी की तुलना में ऋण				
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
नगूने में शामिल कंपनियों की संख्या	3114	3192	3352	3485	1843	3114	3192	3352	3485	1843
<b>कुल (कुल कंपनी)</b>	<b>29.9</b>	<b>22.3</b>	<b>13.8</b>	<b>17.8</b>	<b>12.4</b>	<b>44.4</b>	<b>43.6</b>	<b>43.6</b>	<b>41.4</b>	<b>43.2</b>
<b>बिक्री वाप</b>										
₹ 1 बिलियन	17.9	8.1	10.0	10.0	0.5	49.1	43.3	39.8	39.6	13.2
₹ 1 बिलियन से ₹ 5 बिलियन	28.4	13.7	13.1	11.7	12.1	51.2	56.0	46.3	43.6	44.4
₹ 5 बिलियन से ₹ 10 बिलियन	29.1	18.8	15.0	21.4	10.6	59.0	56.5	51.3	59.8	46.1
₹ 10 बिलियन से अधिक	31.6	25.5	14.0	18.5	12.9	40.2	39.9	42.4	39.0	44.7
<b>उद्योगवार</b>										
<b>खनन और उत्थनन विनिर्माण</b>	<b>36.6</b>	<b>33.9</b>	<b>27.0</b>	<b>27.3</b>	<b>8.0</b>	<b>85.5</b>	<b>54.3</b>	<b>77.0</b>	<b>61.1</b>	<b>19.1</b>
<b>विनिर्माण</b>	<b>27.8</b>	<b>20.2</b>	<b>13.3</b>	<b>17.4</b>	<b>12.9</b>	<b>41.2</b>	<b>42.4</b>	<b>42.0</b>	<b>37.2</b>	<b>42.2</b>
खाद्य उत्पाद और पेय पदार्थ	35.0	15.5	21.0	23.3	19.4	63.7	60.4	58.4	56.0	50.2
सूखी वस्त्र	24.7	11.8	15.0	20.9	8.0	156.6	164.0	145.3	107.6	106.4
रसायन और रासायनिक उत्पाद	16.7	18.2	7.8	13.3	16.3	35.9	41.1	33.8	34.1	36.7
फार्मसूटिकल्स और दवाएं	19.0	22.1	9.8	16.8	12.1	30.3	30.5	25.5	26.4	24.6
प्लास्टिक उत्पाद	35.9	13.9	14.8	16.3	11.0	61.6	87.4	65.4	53.0	44.6
सीमेट और सीमेट उत्पाद	35.6	24.6	11.3	16.7	11.2	68.5	61.6	63.1	33.4	39.3
लोहा और इस्पात	42.2	21.6	15.1	8.6	15.1	82.1	85.0	77.9	73.0	87.4
मशीनरी और मशीनी उपकरण एन.ई.सी	25.4	12.9	15.8	18.9	16.5	15.2	14.2	17.8	14.9	21.2
इलेक्ट्रिकल मशीनरी और एपरेटस	42.6	20.2	10.4	12.3	8.1	26.6	27.3	24.1	23.4	17.6
मोटर वाहन और अन्य परिवहन उपस्कर	26.0	26.3	19.2	14.4	11.7	32.2	41.0	45.5	37.2	35.2
<b>निर्माण</b>	<b>53.7</b>	<b>30.9</b>	<b>20.2</b>	<b>19.2</b>	<b>17.8</b>	<b>45.6</b>	<b>44.5</b>	<b>40.2</b>	<b>71.6</b>	<b>36.1</b>
<b>सेवाएं</b>	<b>33.5</b>	<b>27.0</b>	<b>12.8</b>	<b>15.4</b>	<b>9.0</b>	<b>50.7</b>	<b>42.7</b>	<b>43.7</b>	<b>41.1</b>	<b>39.7</b>
परिवहन	50.9	19.9	15.2	-1.8	10.4	105.8	121.1	102.5	187.5	293.5
दूरसंचार	34.6	43.6	7.2	17.8	1.6	172.2	39.5	44.0	52.3	42.0
स्थावर संपदा	52.2	8.7	14.6	19.3	4.7	31.0	63.8	52.0	49.9	47.4
कंप्यूटर और संबंधित कार्यकलाप	36.2	21.3	20.9	12.1	16.6	13.7	12.6	11.5	10.6	9.2

विवरण 3 : पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की देयताओं और अस्सियों की संरचना											(प्रतिशत)	
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12			2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
क : देयताओं की संरचना						ख : अस्सियों की संरचना						
<b>पूँजी और देयताएं</b>						<b>आस्तियां</b>						
नमूने में शामिल कंपनियों की संख्या	3114	3192	3352	3485	1843	नमूने में शामिल कंपनियों की संख्या	3114	3192	3352	3485	1843	
<b>1 शेयर पूँजी</b>	5.9	5.1	5.0	4.6	3.9	<b>1 सकल अचल आस्तियां</b>	56.7	53.4	53.9	51.1	48.6	
<b>2 रिजर्व और अधिशेष</b>	37.1	37.4	39.8	39.8	41.2	<b>2 मूल्यहास</b>	18.1	15.7	16.3	16.0	15.5	
जिसमें से : पूँजी रिजर्व	14.9	14.6	15.6	15.6	15.4	<b>3 निवल अचल आस्तियां</b>	38.5	37.7	37.7	35.1	33.0	
<b>3 उदारियां</b>	32.1	33.1	31.9	31.5	31.5	<b>4 इन्वेटरियां</b>	13.1	12.5	11.8	11.3	11.7	
जिसमें से : बैंकों से	20.1	21.0	19.9	19.3	17.0	<b>5 ऋण और अग्रिम तथा अन्य देनदार शेष</b>	26.3	23.5	23.7	24.8	26.2	
<b>4 व्यापार बकाया राशि और अन्य चालू देयताएं</b>	20.3	20.8	19.5	20.4	19.4	<b>6 निवेश</b>	14.2	17.1	18.4	17.7	19.5	
जिसमें से : विविध लेनदार	12.1	11.0	11.6	12.3	11.2	<b>7 अग्रिम आयकर</b>	-	-	-	-	-	
<b>5 प्रावधान</b>	4.6	3.6	3.8	3.7	3.5	<b>8 अन्य आस्तियां</b>	1.5	2.5	2.1	4.4	3.0	
<b>6 विविध गैर-चालू देयताएं</b>	-	-	-	-	0.4	<b>9 नकदी और बैंक में शेष राशि</b>	6.4	6.7	6.4	6.7	6.4	
<b>कुल</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>कुल</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	

- : शून्य अथवा नगण्य

विवरण 4 : पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की निधियों के स्रोत और उपयोगों की संरचना											(प्रतिशत)	
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12			2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
क : वर्ष के दौरान निधियों के स्रोतों की संरचना						ख : वर्ष के दौरान निधियों के उपयोगों की संरचना						
<b>निधियों के स्रोत</b>						<b>निधियों के उपयोग</b>						
नमूने में शामिल कंपनियों की संख्या	3114	3192	3352	3485	1843	नमूने में शामिल कंपनियों की संख्या	3114	3192	3352	3485	1843	
<b>आंतरिक स्रोत (अपने स्रोत)</b>	<b>36.9</b>	<b>31.6</b>	<b>49.2</b>	<b>36.4</b>	<b>39.2</b>	<b>1. सकल अचल आस्तियां</b>	<b>38.6</b>	<b>40.3</b>	<b>40.2</b>	<b>27.8</b>	<b>38.5</b>	
<b>1. प्रदत्त पूँजी</b>	<b>0.4</b>	<b>0.1</b>	<b>0.7</b>	<b>0.5</b>	<b>0.1</b>	जिसमें से :						
<b>2. रिजर्व और अधिशेष</b>	<b>23.8</b>	<b>21.3</b>	<b>28.1</b>	<b>22.5</b>	<b>22.1</b>	i) भवन	3.2	3.7	5.2	3.8	5.0	
<b>3. प्रावधान</b>	<b>12.8</b>	<b>10.2</b>	<b>20.3</b>	<b>13.4</b>	<b>17.0</b>	ii) संयंत्र और मशीनरी	19.3	26.4	41.1	11.4	31.1	
जिसमें से : मूल्यहास प्रावधान	8.0	10.2	16.5	11.8	15.5	<b>2. इन्वेटरी</b>	<b>11.8</b>	<b>8.1</b>	<b>12.4</b>	<b>13.2</b>	<b>11.0</b>	
<b>बाहरी स्रोत (स्वयं के स्रोत से भिन्न)</b>	<b>63.1</b>	<b>68.4</b>	<b>50.8</b>	<b>63.6</b>	<b>60.8</b>	जिसमें से :						
						i) कच्चा माल आदि	4.3	0.7	5.3	4.8	2.7	
<b>4. प्रदत्त पूँजी*</b>	<b>17.1</b>	<b>14.4</b>	<b>20.4</b>	<b>14.8</b>	<b>4.6</b>	ii) तैयार माल	2.8	1.0	2.1	4.5	5.1	
जिसमें से : शेयर पर प्राप्तियम	14.4	12.8	18.8	12.3	2.8	<b>3. ऋण और अग्रिम तथा अन्य देनदार शेष</b>	<b>29.9</b>	<b>13.7</b>	<b>16.1</b>	<b>30.1</b>	<b>34.9</b>	
<b>5. उधार</b>	<b>28.3</b>	<b>36.3</b>	<b>14.3</b>	<b>25.2</b>	<b>34.1</b>	3. ऋण और अग्रिम तथा अन्य देनदार शेष	29.9	13.7	16.1	30.1	34.9	
जिसमें से : i) डिबेचर	0.5	5.1	4.5	2.7	1.6	<b>4. निवेश</b>	<b>19.4</b>	<b>23.1</b>	<b>28.9</b>	<b>9.7</b>	<b>15.4</b>	
i) ऋण और अग्रिम	26.0	30.3	9.2	22.5	30.7	<b>5. अन्य आस्तियां</b>	<b>0.7</b>	<b>4.7</b>	<b>0.0</b>	<b>12.4</b>	<b>-3.2</b>	
जिसमें से : बैंकों से	20.5	23.4	5.7	17.9	17.4	<b>6. नकदी और बैंक शेष राशि</b>	<b>-0.5</b>	<b>10.1</b>	<b>2.4</b>	<b>6.8</b>	<b>3.4</b>	
<b>6. व्यापार बकाया राशि और अन्य चालू देयताएं</b>	<b>17.7</b>	<b>17.7</b>	<b>14.4</b>	<b>23.6</b>	<b>21.8</b>							
<b>7. विविध गैर-चालू देयताएं</b>	-	-	-	-	0.3							
<b>कुल</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>कुल</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	